



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 127]
No. 127]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 1979/वैशाख 5, 1901
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 1979/VAISAKHA 5, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिलेखनाएं

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1979

सा० का० नि० 266(ख):—केन्द्रीय सरकार, खोपरा उपकर अधिनियम, 1979 (1979 का 4) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम खोपरा उपकर नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा स्पष्ट न हो,—

(क) “अधिनियम” से खोपरा उपकर अधिनियम, 1979 (1979 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) “उपकर” से इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क अभिप्रेत है ;

(ग) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(घ) “धारा” से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. मासिक विवरणियाँ :—(1) धारा 6 की उपधारा (1) में निविष्ट विवरणी, प्ररूप में दी जाएगी और मिल के अधिभोगी को हस्ताक्षरित घोषणा द्वारा उसे सत्यापित किया जाएगा ।

(2) मिल का अधिभोगी, उपनियम (1) के अधीन दी गई विवरणी के साथ ऐसी जानकारी देगा जैसा उसकी मिन में खपाए गये खोपरा या खोपरा से निष्कषित तेल की मात्रा की विनिश्चय करने के लिए किसी सविदा, दलाल पर्वी श्रीमा पानिसी या अन्य दस्तावेजों के बारे में आवश्यक हो ।

4. अभिलेखों और लेखाओं की परीक्षा :—धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन परीक्षा के प्रयोजन के लिए, कलक्टर या उस धारा के अधीन सशक्त कोई अधिकारी मिल के अधिभोगी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह मिल के अभिलेखों और लेखाओं को उसके समक्ष प्रस्तुत करे ।

5. धारा 7(1) के अधीन सूचना का प्ररूप :—धारा 7 की उपधारा (1) में निविष्ट सूचना में, खपाए गए खोपरे की कुल मात्रा जिस आधार पर उपकर उद्ग्रहणीय है, निर्धारित उपकर की राशि संवत् उपकर राशि और शोध्य उपकर राशि का अलग-अलग उल्लेख किया जाएगा और उसमें यह कथन किया जाएगा कि उपकर न दिए जाने की वशा में, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

6. उपकर के निर्धारण की रीति :—जहाँ मिल का अधिभोगी धारा 6 की उपधारा (1) में निविष्ट विवरणी, उस धारा की उपधारा (2) में विनिविष्ट समय के भीतर देने में असफल रहता है, या उसने विनिविष्ट समय के भीतर ऐसी विवरणी दी है जिसके बारे में कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह अशुद्ध या त्रुटियुक्त है, वहाँ कलक्टर अधिभोगी द्वारा संवेय राशि का निर्धारण उपकर के उस मासिक प्रीसत उद्ग्रहण की राशि के आधार पर करेगा जो उक्त अधिभोगी से उस मास से जिससे निर्धारण सम्बन्धित है, ठीक पूर्ववर्ती बारह

मासों में, जिनमें मिल में वस्तुतः कार्य हुआ है, उद्गृहीत और संश्लेषित की गई है या ऐसी जाँच के आधार पर करेगा जैसी कलक्टर द्वारा 11 के अधीन कर सकता है।

7. उत्पाद प्राप्ति के लेखाओं का रखा जाना:—मिल का प्रत्येक अधिभोगी अपनी मिल में प्राप्त हुए, खपाए गए और निष्कषित खोपरे का उचित लेखा रखेगा।

प्रारूप

(नियम 3 देखिए)

खपाए गए खोपरा पर उपर के संबंध में खोपरा उपर अधिनियम, 1979 (1979 का 4) की धारा 6 के अधीन, 19 की विवर्णी।

1. मिल का नाम
2. क्या मिल कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, यदि हाँ, तो रजिस्ट्रिकरण सं०

3. मिल का पता
 - (i) स्थान :
 - (ii) डाकघर :
 - (iii) तालुका :
 - (iv) जिला :
 - (v) राज्य

4. मिल के पास के पता
 - (i) मानव मात्र के लिए नदर उपर की रकम

6. मिल में संबंधित मास के दौरान विभिन्न प्रकार के दावकों की कुल दावक क्षमता और प्रयुक्त दावक क्षमता :

किस प्रकार का दावक प्रयुक्त हुआ	प्रत्येक प्रकार के दावकों की संख्या	8 घंटे के दिन में प्रत्येक प्रकार की कुल क्षमता	प्रत्येक प्रकार की वस्तुतः प्रयुक्त कुल क्षमता
---------------------------------	-------------------------------------	---	--

1	2	3	4
* 1. द्रव्यासित दावक			
* 2. बहिष्कारित			
* 3. हस्त दावक			
* 4. धूम्र धानी			
* 5. अन्य प्रकार (प्रत्येक प्रकार विनिर्दिष्ट कीजिए)			

* (जो लागू न हो, उसे काट दीजिए)

7. (क) मास के प्रारम्भ में स्टॉक में खोपरे की मात्रा, निर्वटल कि० प्रा०
- (ख) मास के दौरान प्राप्त खोपरे की मात्रा :
 - (i) अपने शोधक याई से
 - (ii) क्रय किया गया भारतीय खोपरा

निर्वटल कि० प्रा०

(iii) आयात और/या क्रय किया गया विदेशी खोपरा

(iv) अन्य स्रोत

(ग) मव (क) और (ख) का योग

(घ) खोपरे का सीधा विक्रय

(ङ) मास के दौरान खपाए गए खोपरे की मात्रा :

(i) बलन के लिए जारी किया गया

(ii) किसी अन्य मास के उत्पादन के लिए

(iii) योग

(च) मास की समाप्ति पर स्टॉक में खोपरे की मात्रा

(छ) मास के दौरान निष्कषित तेल की मात्रा

(ज) मास के दौरान विक्रय किए गए तेल की मात्रा

(झ) मास के दौरान अभिप्राप्त खली की मात्रा

(ञ) मास के दौरान विक्रय की गई या अन्यथा व्ययन की गयी खली की मात्रा

(ट) मास के दौरान उत्पादित अन्य मास की मात्रा

(ठ) मास के दौरान विक्रय किए गए या अन्यथा व्ययन किए गए अन्य मास की मात्रा

(ड) संवत् उपर

(ड) बलान सं० और तारीख तथा प्रेषण खजाने का नाम

क० प०

घोषणा :

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने उपर्युक्त विनिर्देशों का मिलान अपनी मिल के अभिलेखों और बहियों से कर लिया है और वे, जहाँ तक मैं अभिलेख कर सका हूँ, सही और पूर्ण हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने पूर्ववर्ती मासों की विवरणियाँ भेज दी हैं और निर्धारित उपर की रकम संवत् कर दी है।

तारीख

हस्ताक्षर

(अधिभोगी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)

टिप्पण :

1. किसी भी मिल में खपाए गए सभी खोपरे पर, चाहे उनका उत्पादन भारत में हुआ है या वह भारत के बाहर से आयातित है, उपर लगाया जा सकता है।

2. किसी अन्य मास के उत्पादन के लिए भाड़े के आधार पर बने गए या प्रयुक्त खोपरे की मात्रा की भी, इस विवरण के प्रयोजनों के लिए, हिसाब में लिया जाना चाहिए।

[का० सं० 12(12)/78-बी ए1]

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th April, 1979

G.S.R. 266(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Copra Cess Act, 1979, (4 of 1979), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Copra Cess Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Copra Cess Act, 1979 (4 of 1979);
- (b) "cess" means the duty of excise leviable under the Act;
- (c) "Form" means a form annexed to these rules;
- (d) "section" means a section of the Act.

3. Monthly returns.—(1) The return referred to in sub-section (1) of section 6 shall be made in the form and shall be verified by means of a declaration signed by the occupier of the mill.

(2) the occupier of the mill shall furnish with a return submitted under sub-rule (1), such information as may be necessary regarding any contract, brokers' note, policy of insurance or other documents for ascertaining the quantity of copra consumed or oil extracted from copra in his mill.

4. Examination of records and accounts.—For the purpose of the examination under sub-section (2) of section 11, the Collector or the officer empowered under that section may require the occupier of the mill to cause the records and accounts of the mill to be produced before him.

5. Form of notice under section 7(1).—The notice referred to in sub-section (1) of Section 7 shall contain separately the total quantity of copra consumed on the basis of which the cess is leviable, the amount of cess assessed, the amount paid and the amount due and shall include a statement that in the event of the cess not being paid, action will be taken under the provisions of the Act.

6. Manner of assessment of cess.—Where the occupier of a mill has failed to furnish the return referred to in sub-section (1) of section 6 within the time specified in sub-section (2) of that section, or has furnished within the specified period a return which the Collector has reason to believe is incorrect or defective, the Collector shall assess the amount payable by the occupier on the basis of the monthly average amount of cess levied and collected from the said occupier in the twelve months during which the mill actually worked, immediately preceding the month to which the assessment relates, or on the basis of an inquiry which the Collector may make under Section 11.

7. Maintenance of accounts of produce etc.—Every occupier of a mill shall maintain proper accounts of the copra received, consumed or extracted in his mill and of the final products.

FORM

(See Rule 3)

Return under Section 6 of the Copra Cess Act, 1979 (4 of 1979), for the month of — 19 , in respect of cess on copra consumed.

- 1. Name of the Mill
- 2. Whether the Mill is registered under the Factories Act,

1948 and if so, the Registration number

3. Address of the Mill :

- (i) At :
- (ii) Post :
- (iii) Taluka :
- (iv) District :
- (v) State :

4. Name and address of the occupier

5. Amount of cess payable for the month.

6. Total crushing capacity and capacity utilised during the month in the different types of presses used in the Mill :

Type of presses used	Number of presses in each type	Total crushing capacity of each type in quintals of copra per day of 8 hours	Total capacity actually utilised of each type in quintals of copra
----------------------	--------------------------------	--	--

1	2	3	4
---	---	---	---

*1. Hydraulic Press

*2. Expeller

*3. Hand Press

*4. Rotary Ghani

*5. Other Types
(Specify each type)

*Strike out whichever is not applicable.

7. (a) Quantity of copra in stock at the beginning of the month. Quintals Kgs.

(b) Quantity of copra received during the month :

- (i) From own drying yard.
- (ii) Indian copra purchased.
- (iii) Foreign copra imported and/or purchased.
- (iv) Other sources.

(c) Total of items (a) and (b).

(d) Direct sales of copra.

(e) Quantity of copra consumed during the month :

- (i) Issued for crushing.
- (ii) For the production of any other goods.
- (iii) Total.

(f) Quantity of copra in stock at the end of the month.

(g) Quantity of oil extracted* during the month.

(h) Quantity of oil sold during the month.

(i) Quantity of oil cake obtained during the month.

(k) Quantity of other goods produced during the month.

(l) Quantity of other goods sold during the month or otherwise disposed.

(m) Cess paid.

Rs. P.

(n) Challan No. and date, and the name of Treasury of remittance.

DECLARATION

I do hereby declare that I have compared the above particulars with the records and books of my Mill and that they are, in so far as I can ascertain, accurate and complete. I also hereby declare that I have sent the returns and paid the amount of cess assessed for the preceding months.

Dated this—day of

—19

Signature

(To be signed by the Occupier)

NOTE :

1. All copra consumed in any mill whether produced in or imported from outside India is also liable to the cess.
- *2. The quantity of copra crushed or used for the production of any other goods on hire basis should also be taken into account for the purposes of this return.

[F. No. 12(12)/78--CAI/

सं० का० नि० 267 (अ).—केन्द्रीय सरकार, खोपरा उपकर अधिनियम, 1979 (1979 का 4) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन कलक्टर के कर्तव्यों के, जहाँ तक उनका संबंध खोपरा की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण से है, निर्वहन के लिए नियुक्त करती है।

क्रम सं०	अधिकारी	क्षेत्र
1	2	3
1.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, बड़ौदा	गुजरात राज्य के सूरत, बस्मर, डाँम, ब्रौच, बड़ौदा, केशा, पंचमहल और अहमदाबाद जिले तथा अहमदाबाद जिला के वस्त्राहल तालुके, दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र और गोवा, दमण तथा दीव संघ राज्य क्षेत्र का दमण राज्य क्षेत्र।
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, मुम्बई	महाराष्ट्र राज्य के क्रम सं० 12 और 13 के सामने विनिर्दिष्ट जिलों से भिन्न, सभी जिले।
3.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, मद्रास	तमिलनाडु राज्य के मद्रास, उत्तर अर्काट, दक्षिण अर्काट, चिन्नैपेट वंजाबुरी, सलेम धर्मपुरी, कोयम्बटूर और नीलगिरी जिले में मलक्किपारा टी फैक्टरी रेंज में समाविष्ट क्षेत्र (जो केरल राज्य के त्रिपुर जिले के मुकन्दपुरम तालुके के पेरियाराम ग्राम का भाग है) और महे कोम्पून तथा यनम ग्राम को छोड़कर पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र।
4.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, कर्नाटक	कर्नाटक राज्य

1	2	3
5.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, कनकसा	पश्चिमी बंगाल राज्य के कनकसा, 24 परगना, हावड़ा और मिर्जापुर जिला तथा निकोबार द्वीप-समूह का अण्डमान संघ राज्य क्षेत्र।
6.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली, पिथौरागढ़, अम्मोड़ा, नैनीताल, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, हरदोई, बंदायूं, मखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, मन्नीमपुर खेरी, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, राय-बरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, शाजीपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, रामपुर, मुरादाबाद, पीडो-गढ़वाल, चमली, बिजनौर, और बाँदा जिले।
7.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, शिन्धौ	अरुण और नागालैंड, मेघालय, राज्य तथा त्रिपुरा और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र।
8.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, दिल्ली	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और हरयाणा राज्य
9.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद, मेदक, निजामाबाद, करीमनगर आदिनाबाद, अम्माता, नलगोंडा, बार्गाल, महबूब नगर, अन्तपुर कुड्डप्पा, कर्नूल, चित्तूर, नेल्होर जिले तथा अंगोल जिला के कानीगिरी पोडीली डोरोसी तालुके।
10.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, पटना	बिहार राज्य
11.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, इंदौर	मध्य प्रदेश राज्य
12.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, नागपुर	महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रापुर, भंडारा, नागपुर, अकोला, बुलढाना, यवतमल, अमरावती, वाघा और राजुरा जिले।
13.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, पूना	महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर, जलगाँव, छुलिया, नासिक, पूना, सतारा, शोला पुर, सांगली, कोल्हापुर, औरंगाबाद, परभनी, नांदेड, भीर, उस्मानाबाद, कोलाबा, रत्नागिरी और धाना (धाना तालुका को छोड़कर) जिले।
14.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता, 24-परगना, हावड़ा और मिर्जापुर जिले।
15.	सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, कोचीन	केरल राज्य, जिसके अन्तर्गत मलक्किपारा टी फैक्टरी रेंज में समाविष्ट क्षेत्र (जो केरल राज्य

1	2	3	1	2	3
	के त्रिपुर जिला के मुकुंदपुरम तालुक के पेरियाराम ग्राम का एक भाग है) नहीं है पश्चिमेरी संघ राज्य क्षेत्र के माहे कम्यून और कुलकुमलाई टी फैक्टरी रेंज में समाविष्ट क्षेत्र (जो तमिलनाडु राज्य के मदुरै, जिला के उच्चमपलयम तालुक के कोट्टागुडी ग्राम का एक भाग है) और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र हैं।		22. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, गुंटूर	आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, बस्ताबा-पत्तनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर और अंगोल जिसके अन्तर्गत कनीगिरी पोडीली बराई तालुका नहीं हैं, जिले तथा पश्चिमेरी संघ राज्य क्षेत्र के यमन का ग्राम।	
			23. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, कलक्टर भुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य	
			24. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, जयपुर	राजस्थान राज्य	
16. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, कानपुर	उत्तर प्रदेश राज्य के, क्रम सं० 6 के सामने विनिर्दिष्ट जिलों से भिन्न, जिले		[क्र० सं० 12 (12)/78-सी० ए० I] एम० एस० स्वामीनाथम्, सचिव		
17. सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, गोवा	गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र का गोवा राज्य क्षेत्र।		G.S.R. 267(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Copra Cess Act, 1979 (4 of 1979), the Central Government hereby appoints the officers specified in column (2) of the Table below to perform within the areas specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, the duties of a Collector under the provisions of the said Act and the rules made thereunder, in so far as they relate to the levy and collection of the cess referred to in sub-section (1) of section 3 of the said Act, in respect of Copra.		
18. प्रशासक, काण्डला मुक्त व्यापार जोन	काण्डला मुक्त व्यापार जोन में समाविष्ट क्षेत्र		Sl. No.	Officers	Areas
19. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, चंडीगढ़	पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र।		1	2	3
20. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, अहमदाबाद	गुजरात राज्य के अहमदाबाद, जिसके अन्तर्गत अहमदाबाद और बस्त्रोल तालुके नहीं हैं, गांधीनगर, मेहसाना बनकंठा, साबरकंठा, सुरेन्द्र नगर, राजकोट, जामनगर, कच्छ, अमरेली, भावनगर तथा जूनागढ़ जिले और गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र का दीव राज्य क्षेत्र।		1. Collector of Central Excise, Baroda.	The districts of Surat, Bulsar, Dangs, Broach, Baroda, Kaira, Panchmahal and Ahmedabad and Daskhrol talukas of Ahmedabad district, all of the State of Gujarat, the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and the Territory of Daman of the Union Territory of Goa, Daman and Diu.	
21. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, मदुरै	तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी अर्कोट, वानजौर, तिरुचिरापल्ली (पुडु-कोट्टाई), मुदुरै, जिसके अन्तर्गत कोल्लुकुमलाई टी फैक्टरी रेंज में समाविष्ट क्षेत्र (जो जिला मदुरै, तमिलनाडु के उच्चमपलयम तालुका के कोट्टागुडी ग्राम का भाग) नहीं है किन्तु जिसके अन्तर्गत मलकी परई टी फैक्टरी रेंज में समाविष्ट क्षेत्र (जो जिला त्रिपुर, केरल राज्य के मुकुंदपुरम तालुका के पेरियाराम ग्राम का भाग है) और माहे कम्यून तथा यमन ग्राम का छोड़कर पश्चिमेरी संघ राज्य क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र है, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले।		2. Collector of Central Excise, Bombay.	All the districts in the State of Maharashtra other than the Districts specified against S. No. 12 and 13.	
			3. Collector of Central Excise, Madras.	In the District of Madras, North Arcot, South Arcot, Chinglepet, Thanjavuri, Salem, Dharamapuri, Coimbatore and Nilgiris of the State of Tamil Nadu, the area comprised in Malakipara tea factory range (being a part of Periyaram village of Mukundapuram, taluk of Trichur District, Kerala State) and the Union Territory of Pondicherry excluding Mahe Commune and the village of Yanam.	
			4. Collector of Central Excise, Karnataka.	The State of Karnataka	
			5. Collector of Central Excise, Calcutta.	The Districts of Calcutta, 24 Parganas, Howrah and Midnapur of the State of West Bengal and the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands.	

1	2	3	1	2	3	4
6. Collector of Central Excise, Allahabad.	The Districts of Bareilly, Pithauragarh, Almora, Nainital, Shahjahanpur, Pilibhit, Hardoi, Badaun, Lucknow, Unnao, Sitapur, Lakhimpur-Kheri, Faizabad, Barabanki, Sultanpur, Rae-Bareilly, Allahabad, Pratapgarh, Fatehpur, Jaunpur, Mirzapur, Varanasi, Ballia, Gorakhpur, Azamgarh, Deoria, Ghazipur, Gonda, Basti, Baraich, Nagpur, Moradabad, Pauri-Garhwal, Chamoli, Bijnor and Banda of the State of Uttar Pradesh.		16. Collector of Central Excise, Kanpur.	The Districts of the State of Uttar Pradesh other than the Districts specified against S. No. 6.		
7. Collector of Central Excise, Shillong.	The States of Assam and Nagaland, Meghalaya and the Union Territories of Tripura and Manipur, Arunachal Pradesh and Mizoram.		17. Collector of Customs and Central Excise, Goa.	The Territory of Goa of the Union Territory of Goa, Daman and Diu.		
8. Collector of Central Excise, Delhi.	Union Territory of Delhi and the State of Haryana.		18. Administrator, Kandla Free Trade Zone.	The area comprising the Kandla Free Trade Zone.		
9. Collector of Central Excise, Hyderabad.	The Districts of Hyderabad, Medak, Nizamabad, Karimnagar, Adilabad, Khammam, Nalgonda, Warangal, Mahbubnagar, Anantapur, Cuddapah, Kurnool, Chittoor, Nellore and Kanigiri Podili Darsi Talukas of Ongole district, all of the State of Andhra Pradesh.		19. Collector of Central Excise, Chandigarh.	The States of Punjab, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh and the Union Territory of Chandigarh.		
10. Collector of Central Excise, Patna.	The State of Bihar.		20. The Collector of Central Excise, Ahmedabad.	The Districts of Ahmedabad excluding Ahmedabad and Daskhrol talukas, Gandhinagar, Mehsana, Banakantha, Sabarkantha, Surendranagar, Rajkot, Jamnagar, Kutch, Amreli, Bhavnagar, and Junagadh, all of the State of Gujarat and the Territory of Diu of the Union Territory of Goa, Daman and Diu.		
11. Collector of Central Excise, Indore.	The State of Madhya Pradesh.		21. The Collector of Central Excise, Madurai.	The Districts of South Arcot, Thanjavur, Tiruchirapalli (Pudukottai), Madurai excluding the area comprised in Kolukumalai Tea Factory Range (being part of Kottagudi village of Uthamapalayam Taluka of Madurai District, Tamil Nadu) but including the area comprised in Malakiparai Tea Factory Range (being part of Periyaram village of Mukundapuram Taluka of Trichur District, Kerala State), Ramana-thapuram, Tirunelveli and Kanyakumari of the State of Tamil Nadu and excluding Mahe Commune and the village of Yanam in the Union Territory of Pondicherry.		
12. Collector of Central Excise, Nagpur.	The Districts of Chandrapur, Bhandara, Nagpur, Akola, Buldhana, Yeotmal, Amraoti, Wardha and Rajura of the State of Maharashtra.		22. The Collector of Central Excise, Guntur.	The Districts of Srikakulam, Visakhapatnam, East Godavary, West Godavary, Krishna, Guntur and Ongole excluding Kanigiri Podili Darsi Taluka, all of the State of Andhra Pradesh and the village of Yanam of the Union Territory of Pondicherry.		
13. Collector of Central Excise, Poona	The Districts of Ahmednagar, Jalgaon, Dhulia, Nasik, Poona, Satara, Sholapur, Sangli, Kolhapur, Aurangabad, Parbhani, Nanded, Bhil, Osmanabad, Kolaba, Ratnagiri and Thana (except Thana Taluka), all of the State of Maharashtra.		23. Collector of Central Excise, Bhubaneswar.	The State of Orissa		
14. Collector of Central Excise, West Bengal.	The State of West Bengal other than the Districts of Calcutta, 24-Paraganas, Howrah and Midnapur.		24. Collector of Central Excise, Jaipur.	The State of Rajasthan.		
15. Collector of Customs and Central Excise, Cochin.	The State of Kerala excluding the areas comprised in Malakipara Tea Factory Range (being a part of Pariyaram village of Mukundapuram Taluk of Trichur District, Kerala State) but including the areas comprised in Mahe Commune of the Union Territory of Pondicherry and Kulukumalai Tea Factory Range (being a part of Kottagudi village of Uthamapalayam Taluk of Madurai District of Tamil Nadu State) and in the Union Territory of Lakshadweep.					

[F. No. 12(12)/78-C.A. I]

M. S. SWAMINATHAN, Secy.